



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 अक्टूबर, 2024

आश्विन 26, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 18/2024/1239/94-स्टा0नि0-2-2024

लखनऊ, 18 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

आदेश

प०आ०-285

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 78 क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के प्रचालन हेतु जिला कुशीनगर के परिनिश्चित क्षेत्र में कुल 30.14 एकड़ भूमि के अन्तरण हेतु नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में निष्पादित हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट प्रदान करती हैं।

2-इस अधिसूचना के अधीन छूट, तभी प्राप्य होगी, यदि उक्त जिला का जिला मजिस्ट्रेट ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि हस्तान्तरण विलेख उपरोक्त उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निष्पादित किया जा रहा है।

आज्ञा से,  
लीना जौहरी,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 18/2024/1239/XCIV-S.R.-2-2024 dated October 18, 2024:

No. 18/2024/1239/ XCIV-S.R.-2-2024

*Dated Lucknow, October 18, 2024*

IN exercise of the powers under section 78-A of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, registration fees chargeable on conveyance deed executed by the Civil Aviation Department of Government of Uttar Pradesh in favour of the Airport Authority of India, for transfer of total 30.14 acres of in defined area of district Kushinagar for operation of the Kushinagar International Airport.

2- The remission under this notification shall be available if District Magistrate of the said district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the conveyance deed is being executed for the purposes mentioned above.

By order,  
LEENA JOHRI,  
*Pramukh Sachiv.*